

# अपना खर्चा खाटू के दरबार से आता है

माना मेरा राशन तो बाज़ार से आता है  
पर उसका खर्चा खाटू के दरबार से आता है  
किसी का म्हणत से या कारोबार से आता है  
पर अपना खर्चा खाटू के दरबार से आता है

मांगो या फिर ना मांगो ये ठाकुर सब कुछ जाने है  
मेरे मन में क्या है ये तो सब कुछ ही पहचाने है  
मेरी ज़रूरत का मुझको निश्चित मिल जाता है  
पर अपना खर्चा खाटू के दरबार से आता है

जबसे बना है मेरा सखा वो सब कुछ उसपे छोड़ दिया  
मंज़िल अगर कठिन हो तो राहों को उसने मोड़ दिया  
बिना पुकारे झट से ठाकुर दौड़ा अत है  
पर अपना खर्चा खाटू के दरबार से आता है

कभी हंसाता कभी रुलाता और कभी सताता है  
कभी प्रेम से गले लगा कर अपना प्रेम जताता है  
जनम जनम से उससे मेरा प्यारा नाता है  
पर अपना खर्चा खाटू के दरबार से आता है

Source:

<https://www.bharattemples.com/apna-kharcha-khatu-ke-darbar-se-aata-hai/>



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>